

Roll No.

E-124

**M. Com. (Fourth Semester) (Main/ATKT)
EXAMINATION, May-June, 2021**

[Group—C : Banking and Insurance (Optional)]

Paper First

BANKING PRACTICES

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

नोट : निर्देशानुसार सभी खण्डों के उत्तर दीजिए।

Attempt all Sections as directed.

खण्ड—अ

प्रत्येक 1

(Section—A)

वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय प्रश्न

(Objective/Multiple Choice Questions)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Attempt all questions.

सही उत्तर का चयन कीजिए :

Choose the correct answer :

1. भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं :

(अ) सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना

(ब) राष्ट्रीय मुद्रा जारी करना

(स) साख नियंत्रण करना

(द) उपर्युक्त सभी

Functions of Reserve Bank of India are :

(a) Function as a government banker

(b) Issue of national currency

(c) Credit control

(d) All of the above

2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सम्मिलित हैं :

(अ) भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहायक बैंक

(ब) राष्ट्रीयकृत बैंक

(स) (अ) एवं (ब) दोनों

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Public sector bank comprises of :

(a) State Bank of India and its Subsidiaries

(b) Nationalised Bank

(c) Both (a) and (b)

(d) None of the above

3. ATM का पूरा अर्थ है :

(अ) Any time machine

(ब) Automated teller machine

(स) Automatic teller money

(द) All time machine

P. T. O.

ATM stands for :

- (a) Any time machine
- (b) Automated teller machine
- (c) Automatic teller money
- (d) All time machine

4. बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की आय मुख्यतः प्राप्त होती है :

- (अ) स्वीकृत जमा द्वारा
- (ब) जमा पर ब्याज द्वारा
- (स) ऋण पर ब्याज द्वारा
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

The income of banking interest mainly comes from :

- (a) Deposit received
- (b) Interest on deposit
- (c) Interest on loan
- (d) None of the above

5. E-बैंकिंग सम्बन्धी नियम कौन जारी कर सकता है ?

- (अ) संसद
- (ब) भारतीय रिजर्व बैंक
- (स) भारतीय स्टेट बैंक
- (द) उपर्युक्त सभी

Who can pass the law or E-banking ?

- (a) Parliament
- (b) Reserve Bank of India
- (c) State Bank of India
- (d) All of the above

6. डेबिट कार्ड में संख्याएँ होती हैं।

- (अ) 10
- (ब) 12
- (स) 13
- (द) 16

A Debit Card is a digit number.

- (a) 10
- (b) 12
- (c) 13
- (d) 16

7. चेक की अधिकतम सीमा है :

- (अ) 1 करोड़ रुपये
- (ब) 10 करोड़ रुपये
- (स) 20 करोड़ रुपये
- (द) कोई सीमा नहीं

[5]

E-124

Maximum limit of cheque is :

- (a) ₹ 1 crore
- (b) ₹ 10 crore
- (c) ₹ 20 crore
- (d) No limit

8. भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है :

- (अ) HDFC Bank
- (ब) Axis Bank
- (स) IDFC Bank
- (द) Yes Bank

The largest private sector bank in India is :

- (a) HDFC Bank
- (b) Axis Bank
- (c) IDFC Bank
- (d) Yes Bank

9. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इस वर्ष हुई :

- (अ) 1935
- (ब) 1945
- (स) 1947
- (द) 1949

[6]

E-124

The Reserve Bank of India was established in the year :

- (a) 1935
- (b) 1945
- (c) 1947
- (d) 1949

10. वाणिज्यिक बैंक अपनी पूँजी प्राप्त करते हैं :

- (अ) अंश पूँजी द्वारा
- (ब) सुरक्षित कोष/आरक्षित निधि द्वारा
- (स) जनता द्वारा जमा द्वारा
- (द) उपर्युक्त सभी

Commercial Bank gets its funds from :

- (a) Share capital
- (b) Reserve fund
- (c) Deposit from public
- (d) All of the above

11. बैंकों के तरलता सम्बन्धी नियम बनाए तथा लागू किये जाते हैं :

- (अ) विश्व बैंक द्वारा
- (ब) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
- (स) केन्द्र सरकार द्वारा
- (द) उपर्युक्त सभी

P. T. O.

The liquidity rules of banks have been formulated and enforced by :

- (a) World Bank
- (b) Reserve Bank of India
- (c) Central Government
- (d) All of the above

12. खुले बाजार की क्रियाएँ हैं :

- (अ) प्रतिभूतियों का सीधा विक्रय
- (ब) प्रतिभूतियों का सीधा क्रय
- (स) बिलों का क्रय तथा विक्रय
- (द) उपर्युक्त सभी

Open market operations performs :

- (a) Direct sale of securities
- (b) Direct purchase of securities
- (c) Purchase and sale of bills
- (d) All of the above

13. इनमें से कौन-सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है ?

- (अ) राष्ट्रीय मुद्रा जारी करना
- (ब) जमा स्वीकार करना
- (स) ऋण प्रदान करना
- (द) बिलों को भुनाना

Which of the following is not the function of the Commercial Bank ?

- (a) Issue of national currency
- (b) Acceptance of deposits
- (c) Advancing loans
- (d) Discounting of bills

14. बैंक ब्याज लेता है :

- (अ) जमा पर
- (ब) ऋण पर
- (स) (अ) और (ब) दोनों
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Bank charges interest on :

- (a) Deposits
- (b) Loans
- (c) Both (a) and (b)
- (d) None of the above

15. चेक की वैधता की समय सीमा क्या है ?

- (अ) जारी होने की तिथि से 1 माह
- (ब) जारी होने की तिथि से 3 माह
- (स) जारी होने की तिथि से 6 माह
- (द) कोई समय सीमा नहीं है

What is the validity period of a cheque ?

- (a) 1 month from the date of issue
- (b) 3 months from the date of issue
- (c) 6 months from the date of issue
- (d) Unlimited

16. भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना इस वर्ष हुई :

- (अ) 1-4-1935
- (ब) 1-1-1949
- (स) 1-1-1955
- (द) 1-7-1955

The State Bank of India was established in the year :

- (a) 1-4-1935
- (b) 1-1-1949
- (c) 1-1-1955
- (d) 1-7-1955

17. बैंकर चेक में आहर्ता होता है :

- (अ) जो चेक प्राप्त करता है
- (ब) जो चेक को भुनाता है
- (स) हमेशा एक बैंकर होता है
- (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Drawer in the bank cheque is :

- (a) Who receives the cheque
- (b) Who encashes the cheque
- (c) Always a banker
- (d) None of the above

18. E-banking में SSL का पूरा अर्थ है :

- (अ) Secret sockets layer
- (ब) Secured sockets layer
- (स) Symmetric sockets layer
- (द) Systematic sockets layer

The full form of SSL in E-banking is :

- (a) Secret sockets layer
- (b) Secured sockets layer
- (c) Symmetric sockets layer
- (d) Systematic sockets layer

19. स्मार्ट कार्ड इस मानक पर आधारित होता है :

- (अ) TULIP
- (ब) MIME
- (स) HTTP
- (द) SET

Smart card is based on this standard :

- (a) TULIP
- (b) MIME
- (c) HTTP
- (d) SET

20. ATM कार्ड में पिन होता है :

- (अ) 4 अक्षरों का
- (ब) 4 संख्याओं का
- (स) 2 अक्षर तथा 2 संख्याओं का
- (द) उपर्युक्त सभी

PIN in ATM card is of :

- (a) 4 alphabets
- (b) 4 digits
- (c) 2 alphabets and 2 digits
- (d) All of the above

खण्ड—ब

प्रत्येक 2

(Section—B)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

(Very Short Answer Type Questions)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो से तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए।

Attempt all questions. Write in two-three sentences.

1. 'संयुक्त हिन्दू परिवार' का खाता को समझाइये।

Explain account of 'Hindu Undivided Family'.

P. T. O.

2. मुख्तारनामा से आप क्या समझते हैं ?

What do you mean by power of attorney ?

3. चालू खाता किनके लिये अधिक उपयोगी होता है ?

To whom current account is more useful ?

4. निष्क्रिय खाता क्या है ?

What is Dormant Account ?

5. चेकों का रेखांकन क्यों आवश्यक है ?

Why is crossing of cheque necessary ?

6. बैंक नकद साख व्यवस्था से आप क्या समझते हैं ?

What do you mean by Cash Credit System of Bank ?

7. समपार्श्विक प्रतिभूतियाँ क्या हैं ?

What are collateral securities ?

8. साख पत्र को समझाइये।

Explain letter of credit.

खण्ड—स

प्रत्येक 3

(Section—C)

लघु उत्तरीय प्रश्न

(Short Answer Type Questions)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 शब्दों में दीजिये।

Attempt all questions. Answer each question in 75 words.

1. चेक, ड्राफ्ट तथा भुगतान आदेश में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

Explain the difference between a cheque, a banker's draft and a banker's pay order.

2. क्रेडिट कार्ड क्या है ? इसकी कार्यविधि बताइए।

What is credit card ? Explain its working.

3. बैंक को खाता खोलते समय किन-किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए ?

What precautions to be taken by the bank while opening an account ?

4. प्राधीयन अथवा दृष्टिबंधक तथा बंधक का आशय समझाइये।

Explain the meaning of hypothecation and mortgage.

5. माल की प्रतिभूति के विरुद्ध ऋण प्रदान करते समय बैंक को क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए ?

What are the precautions to be followed by the bank while granting loan against goods ?

6. बैंक द्वारा बिलों को भुनाने अथवा बिलों के क्रय करने से आप क्या समझते हैं ? बैंकों को इससे क्या लाभ हैं ?

What do you mean by discounting or purchase of bills by the banks ? What are its advantages to the bank ?

7. KYC की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

Briefly explain KYC.

8. मोबाइल बैंकिंग की चुनौतियों को बताइये।

Explain the challenges of mobile banking.

P. T. O.

खण्ड—द

प्रत्येक 5

(Section—D)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(Long Answer Type Questions)

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दीजिए।

Attempt all questions. Answer each question in 150 words.

1. बैंक अपने ग्राहकों से रुपया प्राप्त करने एवं रुपया उधार देने के अतिरिक्त अन्य सहायक सेवाएँ भी प्रदान करता है। किन्हीं चार अतिमहत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन कीजिए।

Besides accepting deposit and making advances, bank renders certain subsidiary services to their customer. Describe any four of the most important services.

अथवा

(Or)

भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका का विवेचन कीजिए।

Write a note on the role of public sector banks in Indian economy.

2. बैंकर तथा ग्राहक के बीच विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों को स्पष्ट कीजिए।

Discuss the types of relationship between the banker and the customer.

[15]

E-124

अथवा

(Or)

निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :

- (अ) अभिकर्ता का खाता
- (ब) न्यासी का खाता
- (स) पर्दानशीन महिला का खाता

Write notes on the following :

- (a) Account of agent
- (b) Account of trustee
- (c) Account of pardanashin woman

3. बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा निजीकरण को समझाइये।

Explain the nationalisation and privatisation of Bank.

अथवा

(Or)

निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :

- (अ) E-banking
- (ब) Green banking

Write notes on the following :

- (a) E-banking
- (b) Green banking

[16]

E-124

4. भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय स्टेट बैंक की भूमिका को विस्तार से समझाइये।

Explain in detail the role of State Bank of India in Indian economy.

अथवा

(Or)

वाणिज्यिक बैंकों के विभिन्न प्रकार बताइए।

What are the types of Commercial Banks ?

E-124

P. T. O.